

July 29, 2023

National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor  
Plot No.C/1, G-Block  
Bandra-Kurla Complex  
Bandra (E)  
MUMBAI – 400051, India

BSE Limited  
1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring  
Rotunda Building  
P.J. Towers, Dalal Street  
Fort  
MUMBAI – 400001, India

**Scrip Code : MSUMI**

**Scrip Code : 543498**

**Ref.: : Publication of Un-Audited Financial Results in Newspaper for the quarter ended June 30,2023**

Dear Sir (s)/ Madam(s),

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III (Part A) to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of newspaper publication(s) dated July 29, 2023 with respect to un-audited financial results for the quarter ended June 30, 2023.

The above is for your information and records.


Thanking You,

Yours truly  
For Motherson Sumi Wiring India Limited

POOJA MEHRA  
Digitally signed by  
POOJA MEHRA  
Date: 2023.07.29  
16:02:02 +05'30'

Pooja Mehra  
Company Secretary

Regd. Office:  
**Motherson Sumi Wiring India Limited**  
Unit – 705, C Wing, ONE BKC, G Block Bandra Kurla Complex,  
Bandra East Mumbai – 400051, Maharashtra (India)  
Tel: 022-61354800, Fax: 022-61354801  
CIN No.: L29306MH2020PLC341326  
E-mail: investorrelations@mswil.motherson.com  
website: www.mswil.motherson.com

Proud to be part of samvardhana 

# BOJ Loosens Tight Grip on Rates as Prices Rise

Keeps bond yield targets, allowance band unchanged

**Tokyo:** The Bank of Japan slowly shifted away from decades of massive monetary stimulus on Friday as inflation and economic growth picked up, allowing the country's interest rates to move more freely.



## Yen Swings After BOJ Policy Tweak

**LONDON** The yen whipsawed in its most volatile trading session in months on Friday after the Bank of Japan made its yield curve control policy more flexible, which investors took as a step towards an eventual shift in its massive stimulus programme. Chopping and changing direction as traders digested the BOJ decision, the yen strengthened by as much as 1.2% to as much as 138.05 per dollar before weakening 1% on the day to 141.20. The Japanese currency was last at 138.97, up 0.4% against the dollar.

In what some analysts said could be a seismic shift for global financial markets, the BOJ made it was making its bond yield control policy more flexible and loosened its defence of a long-term interest rate cap after a two-day policy meeting. Global markets saw the move as another small step towards Japan's coming in line with other major central banks — which have been aggressively raising rates in the past year to tackle inflation — after decades of aggressive Japanese stimulus which arguably did little to rekindle economic growth. While the central bank kept interest rates at ultra-low levels and stressed the need to maintain support for the economy, it said the tweak to its bond yield curve control scheme (YCC) would allow it to respond "nimble" to risks including rising price pressures in the world's third-largest economy. However, BOJ Governor Kazuo Ueda brushed aside the view that it was a step towards policy normalisation. Most major central banks such as the U.S. Federal Reserve and the European Central Bank have been sharply hi-

king interest rates over the past year to combat surging inflation, while the BOJ has stood pat, pressuring the yen. BOJ policymakers have argued that a spike in inflation may be transitory, caused by external pressures such as high oil prices not strong domestic demand, though recent data have suggested domestic price pressures may be becoming more entrenched. Ueda said the BOJ could tweak policy further if the likelihood of sustainably hitting the bank's 2% inflation target heightens. **Reuters**

## 'Second Lottery Round for H-1B Applicants to be Conducted This Yr'

**Washington:** A second round of random lottery selection for the much sought-after H-1B visas for fiscal 2024 will soon begin after it was determined that "additional registrations" need to be selected to reach the numerical allocations, the US federal immigration agency has announced, a decision that could benefit more Indian professionals. The US Citizenship and Immig-

ration Services (USCIS) said on Thursday that it will select the additional registrations from the previously submitted electronic registrations using a random selection process. In March, the USCIS conducted an initial random selection of properly submitted electronic

registrations for the fiscal year (FY) 2024 H-1B cap, including for beneficiaries eligible for the advanced degree exemption. Only those petitioners with selected registrations for FY 2024 are eligible to file H-1B cap-subject petitions. The initial filing period for those with selected registrations for FY 2024 was from April 1, 2023, through June 30, 2023. **PTI**

**SBI Stressed Assets Management Branch Chennai - 600 008**

**COMMERCIAL SPACE FOR SALE**

(Under SARFAESI Act)

**30 Acres 64 Cents of Industrial Land with Building at Jagaveerapandiapuram Village, Ottapidaram Tk, Tuticorin, Tamil Nadu, is for e-auction sale on 17.08.2023**

Reserve Price: ₹ 17,15,00,000/- ; EMD: ₹ 1,71,50,000/-

For further details please visit <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> & <https://sbi.co.in>

Contact: B.Sindhu, AGM (Mob: 8838338084/9952994234)

**EAST CENTRAL RAILWAY**

**E-TENDER NOTICE**

The Divisional Railway Manager (Engg)/E.C. Railway/Samastipur for and on behalf of the President of India invites Open Tender from experienced and financially capable tenderers for the following works in E-Tendering mode of IREPS web portal of Indian Railways:-

**Sl. No. 1, Tender Notice No. : TC-126-2023-SPJ, Name of work : Special repair to DRM office and its premises including laboratories under the jurisdiction of ADEN/Land/SPJ. Tender Value. (in ₹) : 16697448.02, Earnest Money (in ₹) : 233500.00, Completion period of the work : 09 Months, Sl. No. 2, Tender Notice No. : TC-127-2023-SPJ, Name of work : Sitarahar-Raxauli: TBR-58.11 TKM. Tender Value. (in ₹) : 52820427.12, Earnest Money (in ₹) : 414100.00, Completion period of the work : 18 Months, Sl. No. 3, Tender Notice No. : TC-128-2023-SPJ, Name of work : Improvement of Cess in NKE-RXL-SMI section under ADEN/NKE. Tender Value. (in ₹) : 10314701.00, Earnest Money (in ₹) : 201600.00, Completion period of the work : 12 Months, Sl. No. 4, Tender Notice No. : TC-129-2023-SPJ, Name of work : Civil Engineering cost for construction of IB HUT in connection with "Provision of IBPS in SPJ Division BUG-VKNR (UP direction)". Tender Value. (in ₹) : 2026918.36, Earnest Money (in ₹) : 40500.00, Completion period of the work : 06 Months, Sl. No. 5, Tender Notice No. : TC-130-2023-SPJ, Name of work : Civil Engineering cost for construction of IB HUT in connection with "Provision of IBPS in SPJ Division PPA-JDR (UP and DN direction)". Tender Value. (in ₹) : 2026918.36, Earnest Money (in ₹) : 40500.00, Completion period of the work : 06 Months.**

1. Last Date & time for receiving of Tender in E-Tender mode on IREPS web portal: 18/08/2023 upto 12.00 hours.

2. Opening Date & time for E-Tender: 18/08/2023 after 12.00 hours.

3. Website particulars where complete details of tender & tender document can be seen on Website: [www.ireps.gov.in](http://www.ireps.gov.in). Amendments/modifications if any shall not be published in the newspapers but the same shall be uploaded in the website.

**Sr. Divisional Engineer/Co-ord, E.C. Rly./Samastipur PR/0848/SPJ/ENGG/IT/23-24/64**

**motherson**

**MOTHERSON SUMI WIRING INDIA LIMITED**

Regd. Office: Unit No. 705, C-Wing, ONE BKC, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra-400051, India  
Tel No. 022-61354800, Fax: 022-61354801, Email: [investorrelations@mswil.motherson.com](mailto:investorrelations@mswil.motherson.com), Website: [www.mswil.motherson.com](http://www.mswil.motherson.com)  
CIN - L29306MH2020PLC341326

### UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

Particulars	Three months ended			Year ended
	30/06/2023 (Unaudited)	31/03/2023 (Audited)	30/06/2022 (Unaudited)	31/03/2023 (Audited)
1 Total income from operations	1,858.79	1,864.42	1,670.94	7,057.37
2 Net Profit / (Loss) for the period before tax (before exceptional items)	166.09	178.64	175.93	652.21
3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	166.09	178.64	175.93	652.21
4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	123.13	138.47	125.96	487.04
5 Total comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	117.30	138.60	128.26	484.33
6 Paid up Equity Share Capital (of Re. 1/- each)	442.11	442.11	315.79	442.11
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve)				888.35
8 Earnings Per Share (of Re 1/- each) - Basic and Diluted (not annualised)	0.28	0.31	0.28	1.10

**Notes**

a) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the LODR Regulations. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.mswil.motherson.com](http://www.mswil.motherson.com)).

b) The shareholders of the Company approved the issue of bonus shares on November 5, 2022 in proportion of 2 equity shares for every 5 equity shares held. These bonus shares have been allotted on November 18, 2022 and got trading approval from stock exchanges from November 28, 2022. Accordingly, earnings per share (basic and diluted) for the year/periods presented in the financial results are calculated after considering the impact of issuance of such equity shares.

c) Figures of previous year / periods have been reclassified / regrouped / restated, wherever necessary.

By Order of the Board of Directors  
For Motherson Sumi Wiring India Limited  
-sd-  
**V C SEHGAL**  
Chairman

Place: Dubai  
Date: July 28, 2023

Proud to be part of samvardhana motherson

**GAIL (India) Limited**  
(A Government of India Undertaking)

**NOTICE TO SHAREHOLDERS OF GAIL (INDIA) LIMITED**

In line with the SEBI and MCA Circulars, the Notice of 39<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) and Annual Report of the Company for the Financial Year 2022-23 has been sent to the Members of the Company through electronic mode whose e-mail ID(s) are registered with the Depository Participant (DP) or R&TA. The same is also hosted on the website(s) of the Company ([www.gailonline.com](http://www.gailonline.com)), Stock Exchanges i.e. BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)), National Stock Exchange of India Limited ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) (agency for providing the Remote e-Voting facility) ([www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com)).

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote on all resolutions set forth in the Notice convening the 39<sup>th</sup> AGM using electronic voting system ("Remote e-voting"). The Company has engaged the services of Depository viz. Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") to provide the remote e-voting facility. The remote e-voting period commences on **Saturday, 19<sup>th</sup> August, 2023 (9:00 am) (IST) and ends on Tuesday, 22<sup>nd</sup> August, 2023 (5:00 pm) (IST)**. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for remote e-voting thereafter and remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A person whose name is registered as a member in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on **cut-off date i.e. Wednesday, 16<sup>th</sup> August, 2023** shall be entitled to avail the facility of a) remote e-voting; b) participation at the AGM through VC/OAVM; and c) vote through e-voting mode available during the AGM.

The members who have casted their vote by remote e-voting mode may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote during the AGM. Once a vote on a resolution is submitted by the member through remote e-voting or e-voting, the member shall not be allowed to change it. The remote e-voting facility is available to the members as on the cut-off date at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com). Only those members, who would be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the AGM.

Members are requested to refer to instructions for remote e-voting which forms a part of AGM Notice. If you have any queries or issues regarding attending the AGM or casting vote through remote e-voting or e-voting mode(s) using the e-voting system, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com), under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or contact at toll free no. 1800 22 55 33. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Shri Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25<sup>th</sup> Floor, Marathon Future, MaFattal Mill Compounds, NM Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call at aforementioned toll free number. Alternatively, the members may contact our R&TA at [admin@mcsregistrars.com](mailto:admin@mcsregistrars.com) or Shri. Ajay Dalal, Sr. Manager (Admin), MCS STA at [91-11-41406149-52](tel:91-11-41406149-52) (Address: MCS Share Transfer Agent Limited Unit: GAIL (India) Limited, 1<sup>st</sup> Floor, F-65, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020).

If a person is already registered with CDSL/NSDL for e-voting then existing login ID and password to be used for remote e-voting or e-voting. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company and holds share as on cut-off date may obtain the login id and password by sending request along with their shareholding details to [shareholders@gail.co.in](mailto:shareholders@gail.co.in) or [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).

In terms of Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is providing one-way live webcast of the proceedings of the AGM for the shareholders on **Wednesday, 23<sup>rd</sup> August, 2023 from 11:30 a.m. onwards** till conclusion of the AGM. You may access the same at GAIL's website ([www.gailonline.com](http://www.gailonline.com)).

To enable the Company to better serve its members it is requested that those members who wish to avail the National Automated Clearing House (NACH) facility i.e. direct credit of dividend amount in the bank account are requested to update their bank details with their depository (DP) (if shares are held in electronic mode) or R&TA/Company (if shares are held in physical mode).

Further, shareholders who are holding shares in physical form are requested to dematerialize their physical shareholdings. Members are requested to note that SEBI vide circular dated January 25, 2022 has mandated that listed companies shall henceforth issue the securities in dematerialized form only while processing service requests for issue of duplicate securities certificate, claim from Unclaimed Suspense Account, renewal/exchange of securities certificate, endorsement, subdivision/splitting of securities certificate, consolidation of securities certificates/folios, transmission and transposition purposes.

Member(s) who have not yet encashed their Dividend Warrant(s) may approach the R&TA/Company for issuance of demand draft(s) upon completion of necessary formalities, at least 3 weeks before the due date for transfer to IEPF. Member(s) may visit 'Investor Zone' section at Company's website for further reference. To facilitate the member(s) to register their request/complaint, if any, designated e-mail ID of the R&TA and Company is [admin@mcsregistrars.com](mailto:admin@mcsregistrars.com) and [shareholders@gail.co.in](mailto:shareholders@gail.co.in) respectively.

**For GAIL (India) Limited**  
Sd/-  
**(Mahesh Kumar Agarwal)**  
Company Secretary  
GAIL Bhawan, 16 Bhikaji Cama Place, R K Puram, New Delhi-110066  
CIN: L40200DL1984G01018976

Place: New Delhi  
Date: 29.07.2023  
E-mail: [shareholders@gail.co.in](mailto:shareholders@gail.co.in)

**यूको बैंक UCO BANK**  
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)  
Head Office : 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700 001  
सम्मान आपके विश्वास का Honours Your Trust

**Eight decades of trust and togetherness**

Home Loan @ **8.45%\***  
Dream Car Loan @ **8.45%\***

UCO mBanking Plus  
Banking Just a WhatsApp Away! **8334001234**  
Missed Call for Loan Schemes **7666399400**

	Net Profit	Total Business	Advances	Deposit	NII	NIM	ROA	PCR	GNPA	Net NPA
	80.80% (Y-o-Y)	16.06% (Y-o-Y)	25.07% (Y-o-Y)	10.81% (Y-o-Y)	21.78% (Y-o-Y)	2.86%	0.28%	94.88%	4.48%	1.18%

**Unaudited (Reviewed) Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2023** (₹ in Lakh)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter Ended 30.06.2023 (Reviewed)	Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2022 (Reviewed)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2023 (Reviewed)	Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2022 (Reviewed)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
1.	Total Income from Operations (net)	585695	594694	379659	2015898	585695	594694	379659	2015898
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	34666	90651	19310	290511	34666	90651	19310	290511
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	34666	90651	19310	290511	34666	90651	19310	290511
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	22348	58124	12361	186234	22493	55745	11749	182628
5.	Total Comprehensive income for the period (comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.	Paid Up Equity Share Capital	1195596	1195596	1195596	1195596	1195596	1195596	1195596	1195596
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserves)	1100525	1100525	890535	1100525	1084444	1084444	877447	1084444
8.	Securities Premium Account	362571	362571	362571	362571	362571	362571	362571	362571
9.	Net Worth	1436596	1401505	1125085	1401505	1420661	1385424	1111998	1385424
10.	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	0.09	0.07	0.20	0.07	0.09	0.07	0.20	0.07
11.	Debt Equity Ratio	0.86	0.80	0.53	0.80	0.87	0.80	0.54	0.80
12.	Earning Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations)-								
	1. Basic :	0.19	0.49	0.10	1.56	0.19	0.47	0.10	1.53
	2. Diluted :	0.19	0.49	0.10	1.56	0.19	0.47	0.10	1.53
13.	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Debtenture Redemption Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-

**Note:** 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (BSE: [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) & NSE: [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and Bank's website ([www.ucobank.com](http://www.ucobank.com)). 2. Information relating to Total Comprehensive Income and other Comprehensive Income is not furnished as Ind AS is not yet made applicable to the Bank.

Place: Kolkata  
Dated: 28th July, 2023

**Sd/- Rajendra Kumar Saboo**  
Executive Director

**Sd/- Ashwani Kumar**  
Managing Director & CEO

[www.ucobank.com](http://www.ucobank.com)

UCOBankOfficial | official.ucobank | official.ucobank | UCO Bank | UCO Bank | UCO Bank Official

Toll Free Help Line No: 1800 103 0123



### धर्म छिपा शादी की जांच के लिए नियम बनाएगी असम पुलिस

पिटीआई, गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने राज्य में 'धर्म छिपाकर' शादी के मामलों की जांच के लिए पुलिस से नियम यानी SOP बनाने को कहा है।

पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन में सीएम ने कहा, 'धर्म छिपाकर शादी की जांच के लिए पुलिस से नियम यानी SOP बनाने को कहा है। वोगाईगांव में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन में सीएम ने कहा, 'धर्म छिपाकर शादी की जांच के लिए पुलिस से नियम यानी SOP बनाने को कहा है। वोगाईगांव में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन में सीएम ने कहा, 'धर्म छिपाकर शादी की जांच के लिए पुलिस से नियम यानी SOP बनाने को कहा है। वोगाईगांव में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन में सीएम ने कहा, 'धर्म छिपाकर शादी की जांच के लिए पुलिस से नियम यानी SOP बनाने को कहा है।

# बच्चे की अर्जी पर SC ने पूछा, उसे मुखौटा तो नहीं बनाया? कहा, सुप्रीम कोर्ट हर समस्या के लिए रामबाण नहीं

Rajesh.Choudhary@timesgroup.com

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दो साल के एक बच्चे की अर्जी खारिज कर दी। 2019 में दो साल के बच्चे की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि देश में अविधेय मानव अंग तस्करी पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किया जाए। मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सवाल किया कि क्या दो साल के बच्चे को याचिकाकर्ता बनाकर अन्य लोगों की ओर से मुखौटे के तौर पर इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस.के. कौल की अगुवाई वाली बेंच के सामने यह मामला सुनवाई के लिए शुक्रवार को आया। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे लगता है कि अन्य मकसद के लिए बच्चे को मुखौटा बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट हर समस्या के लिए रामबाण नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि वर्मा कमिटी की सिफारिश में इस मुद्दे को देखा गया था। याचिकाकर्ता बच्चे की ओर से उनकी मां ने अर्जी दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि मानव अंग को तस्करी हो रही है। गरीबों के अंग निकाले जा रहे हैं और उसका व्यापार हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि हर समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता है।



### कोर्ट की फटकार...

- 2019 में दो साल के बच्चे की ओर से याचिका दाखिल की गई थी।
- याचिका में अविधेय मानव अंग तस्करी पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका को खारिज कर दिया।

### मुख्तार अंसारी के बेटे को हेट स्पीच केस में राहत नहीं

विश्व, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच देने के मामले में दर्ज केस को खारिज करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अंसारी की ओर से अर्जी दाखिल कर केस खारिज करने की मांग की गई थी। उमर अंसारी और उनके भाई के खिलाफ हेट स्पीच मामले में क्रिमिनल केस दर्ज किया गया था। उमर पर आरोप है कि उन्होंने मऊ जिले में चुनावी रैली के दौरान सरकारी अधिकारियों को धमकाया था। इस मामले में उमर और उनके एमएलए भाई अब्बास अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मामले में हाई कोर्ट से जब अंसारी को राहत नहीं मिली तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने एकआईआर खारिज करने से मना कर दिया और कहा कि आपको ट्रायल का सामना करना होगा।

### वैवाहिक रिश्ते में सुधार की गुंजाइश न होना हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक का आधार नहीं: HC

Prachi.Yada@timesgroup.com

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक रिश्ते में सुधार की गुंजाइश न होना हिंदू मैरिज एक्ट (HMA) के तहत तलाक की मंजूरी का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान में केवल सुप्रीम कोर्ट को इस एक आधार पर विवाह खत्म करने की शक्ति हासिल है। हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 142 में निहित इस शक्ति के समान कोई अधिकार हाई कोर्ट को हासिल नहीं है। जस्टिस संजीव

सचदेव और जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने अपने एक फैसले में इस मुद्दे से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि 'शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन: 2023' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142(1) के तहत शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसके पास इस आधार पर शादी को खत्म करने का विवेकाधिकार है। लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल पक्षकारों को पूरी तरह से न्याय देने के लिए किया जाना चाहिए। ऐसे करते हुए कोर्ट के लिए इस बात से खुद को संतुष्ट करना जरूरी है कि तथ्यों से विवाह की पूरी तरह से विफल होने की बात साबित हो रही हो। पक्षकारों के फिर से साथ रहने को कोई कोई संभावना न बची हो। उस रिश्ते को औपचारिक तौर पर वैध बनाए रखना खरना अनुचित हो।



### 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन				समेकित			
		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		
		30.06.2023 (अनंकेक्षित)	31.03.2023 (अंकेक्षित)	31.03.2023 (अंकेक्षित)	30.06.2023 (अनंकेक्षित)	31.03.2023 (अंकेक्षित)	30.06.2022 (अनंकेक्षित)	31.03.2023 (अंकेक्षित)	
1	प्रचालनों से आय	503.67	658.99	578.33	2519.62	544.35	686.81	605.04	2628.27
2	अन्य आय	17.69	31.17	31.40	119.16	18.28	18.82	31.67	101.75
3	कुल आय	521.36	690.16	609.73	2638.78	562.63	705.63	636.71	2730.02
4	कर पूर्व निवल लाभ/(हानि)*	129.08	184.49	173.58	708.54	162.55	191.13	195.12	773.92
5	अवधि/वर्ष के लिए कर परश्चात निवल लाभ/(हानि)*	95.88	138.37	129.26	530.54	119.58	138.89	144.70	570.97
6	कुल व्यापक आय [लाभ/(हानि) (कर परश्चात) एवं अन्य व्यापक आय (कर-परश्चात) शामिल]	97.33	139.81	129.45	536.33	120.89	140.24	144.79	576.62
7	इक्विटी शेयर पूंजी	240.30	240.30	240.30	240.30	240.30	240.30	240.30	240.30
8	अन्य इक्विटी (गैर-निबंधित हिस्से को छोड़कर)				2262.74				2363.48
9	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)**								
	मूल (₹)	3.99	5.76	5.38	22.08	4.49	5.49	5.72	22.56
	डाइल्यूटेड (₹)	3.99	5.76	5.38	22.08	4.49	5.49	5.72	22.56

\* अवधि के दौरान कोई अपवादाल्मक मद नहीं थी। \*\* 30 जून, 2023, 31 मार्च, 2023 एवं 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए ईपीएस वार्षिकीकृत नहीं किया गया है।

टिप्पणियाँ: 1. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निर्देशक मंडल द्वारा 28 जुलाई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया है। 2. उपरोक्त परिणाम सेबी (स्वीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों को पास दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) और [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट [www.rites.com](http://www.rites.com) पर उपलब्ध है। 3. कंपनी/समूह के वित्तीय परिणामों को कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, के साथ पडिबल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित किये गये अनुसार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एस) के अनुरूप तैयार किया गया है। 4. रेल मंत्रालय (एमओआर) ने अपने पत्र दिनांक 18.10.2021 के माध्यम से इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आईआरएससीसी) को बंद करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया था, जिसमें कंपनी ने ₹. 48 करोड़ का निवेश किया है। बंद करने की कार्यवाही चल रही है और आईआरएससीसी की निदेशक मंडल ने आईआरएससीसी को परिस्थितियों एवं देयताओं को बंदी मूल्य से कम राशि पर नहीं आधार पर रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को अंतरित करने का निर्णय लिया है। आईआरएससीसी का वित्तीय विवरण परिस्थिति के आधार पर तैयार किया गया है। 31.03.2023 को, आईआरएससीसी ने ₹. 225 करोड़ की निवल संपत्ति दर्ज की है और 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹. 0.52 करोड़ का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया है। इसलिए, प्रबंधन को आईआरएससीसी में निवेश के मूल्य में कोई हानि दिखाई नहीं देती है। 5. निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹. 3.75 प्रति शेयर (अंकेत मूल्य ₹. 10 प्रति शेयर) के अंतरिम लाभांश का प्रस्ताव किया है। 6. 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के आंकड़े पूर्ण वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षित आंकड़ों और 31 दिसंबर 2022 को समाप्त नौ महीनों के आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं जो सीमित समीक्षा के अधीन थे। 7. जहाँ कहीं आवश्यक हुआ पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनः समूहित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

### रिटेस लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम) [www.rites.com](http://www.rites.com)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीआईएन : 07610499

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से हस्ता/ (राहुल मिश्राल)

उपनिर्देशक और प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीआईएन : 07610499

Transforming to GREEN Future Ready Not Just more of the same, but much more of the New!

रेलवे | निर्यात | शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सरटनेबिलिटी | राजमार्ग | पुल एवं सुरंगें | भवन एवं विमानपत्तन | बन्दरगाह एवं हार्बर | रोपवेज | गुणवत्ता आश्वासन

पंजीकृत कार्यालय : स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092, भारत | ई-मेल : [cs@rites.com](mailto:cs@rites.com) | फोन : 0124-2571666 | सीआईएन : L74899DL1974GD1007227

## MOTHERSON SUMI WIRING INDIA LIMITED

Regd. Office: Unit No. 705, C-Wing, ONE BKC, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra-400051, India  
Tel No. 022-61354800, Fax: 022-61354801, Email: [investorrelations@mswil.motherson.com](mailto:investorrelations@mswil.motherson.com), Website: [www.mswil.motherson.com](http://www.mswil.motherson.com)  
CIN - L29306MH2020PLC341326

### UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

Particulars	INR in Crores			
	Three months ended			Year ended
	30/06/2023 (Unaudited)	31/03/2023 (Audited)	30/06/2022 (Unaudited)	31/03/2023 (Audited)
1 Total income from operations	1,858.79	1,864.42	1,670.94	7,057.37
2 Net Profit / (Loss) for the period before tax (before exceptional items)	166.09	178.64	175.93	652.21
3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	166.09	178.64	175.93	652.21
4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	123.13	138.47	125.96	487.04
5 Total comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	117.30	138.60	128.26	484.33
6 Paid up Equity Share Capital (of Re. 1/- each)	442.11	442.11	315.79	442.11
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve)				888.35
8 Earnings Per Share (of Re 1/- each) - Basic and Diluted (not annualised)	0.28	0.31	0.28	1.10

Notes: a) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the LODR Regulations. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.mswil.motherson.com](http://www.mswil.motherson.com)). b) The shareholders of the Company approved the issue of bonus shares on November 5, 2022 in proportion of 2 equity shares for every 5 equity shares held. These bonus shares have been allotted on November 18, 2022 and got trading approval from stock exchanges from November 28, 2022. Accordingly, earnings per share (basic and diluted) for the year/periods presented in the financial results are calculated after considering the impact of issuance of such equity shares. c) Figures of previous year / periods have been reclassified / regrouped / restated, wherever necessary.

By Order of the Board of Directors  
For Motherson Sumi Wiring India Limited -sd-  
V C SEHGAL  
Chairman

Place: Dubai  
Date: July 28, 2023

Place to be part of samvardhana motherson

### सीएसआईआरजीओएम और समवेत जीवविज्ञान संस्था - CSIR - INSTITUTE OF GENOMICS & INTEGRATIVE BIOLOGY, MALL ROAD, NEAR JUBILEE HALL, DELHI-07

Phone: 27662326, 27667806, Fax: 011-27662099, 27667471

#### सीएसआईआरजीओएम में सलाहकारों की नियुक्ति

विज्ञापन सं. 03/2023 दिनांक : 07.07.2023

दिल्ली में निम्न सीएसआईआरजीओएम - सहायक और केन्द्रीय सहायक निदेशक/केन्द्र सहायक / सहायक के पाठ्य संशोधन के रूप में नियुक्ति हेतु, सीएसआईआरजीओएम / केन्द्रीय सहायक निदेशक/केन्द्र सहायक / सहायक के पाठ्य संशोधन के रूप में नियुक्ति हेतु के आधार पर आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पदों से संबंधित विवरण संक्षेप में नीचे दिया गया है:-

पद कोड	पदों की संख्या	ग्रेड सीसीओ में सेवाविशुद्धि के समय धारित पद	अनुभाग/अध्याय
0101	01	Assistant Section Officer or equivalent / Level 7 or above	सामान्य प्रशासन
0102	01	Section Officer or equivalent / Level 8 or above	सिस्टम ऑफिसर - आर्गैनीजेशन
0103	01	Assistant Section Officer or equivalent / Level 7 or above	सिस्टम एवं रिसर्च विभाग
0104	01	Sr. Deputy Secretary or equivalent / Level 13 or above	सीएसआईआरजीओएम - आर्गैनीजेशन

इच्छुक उम्मीदवार योग्यता मानक और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विवरण हेतु अधिक जानकारी सीएसआईआरजीओएम की वेबसाइट [www.igib.res.in](http://www.igib.res.in) पर देख सकते हैं।

CBC 36214/12/0003/2324

## SHIRT upto 60% off

### TROUSER & JEANS SALE

Formal & Party Wear

ARROW PARK AVENUE ColorPlus LOUIS PHILIPPE Levi's

- PUNCHKUIAN ROAD, Garwal Bhawan, (Near Jhandewalan, Gole Chkr.)
- WAZIRPUR A-5, Near Richi Rich Banquet (Opp. Shalimar Bagh)
- JANAKPURI B-1/2, Main Najafgarh Road, Opp. Metro Pillar 543
- NOIDA, Nirula's Sec-2, Near Metro Station, Sec-15, Noida, UP
- LAJPAT NAGAR, 49, Main Ring Road, Adj. Haldi Ram, Near Moolchand Crossing

### भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

7वीं मंजिल, ऑफिस ब्लॉक, टावर-1, रिंग रोड, एम्स के सामने, किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली-23

#### सूचना

विषय: प्रतिनियुक्ति के आधार पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में महानिदेशक का पद भरना।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कार्यालय ज्ञापन क्रमांक ए-12011/2/2023-एचआर दिनांक 26.07.2023 के माध्यम से केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के पात्र और इच्छुक अधिकारियों से विदेश सेवा शर्तों के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर निम्नलिखित पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं:-

पद	पद का वेतनमान
महानिदेशक	पे मैट्रिक्स का लेवल 15 (₹. 182200-224100)

वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/एपीएआर आदि की प्रतियों के साथ उचित माध्यम से निर्धारित प्रारूप में सीसीआई में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2023 शाम 5:00 बजे तक है। पात्रता मानक, शैक्षणिक योग्यता/अनुभव, आवेदन प्रपत्र आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट [www.cci.gov.in](http://www.cci.gov.in) देखें या कार्य दिवसों पर दूरभाष नंबर 011- 24664100 पर संपर्क करें।

CBC 07112/12/0002/2324

### भारत सरकार

#### इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

#### मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

#### इलेक्ट्रॉनिक्स निदेशक, नई दिल्ली

#### रिक्त परिपत्र

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवी) का एक संलग्न कार्यालय मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) विभिन्न प्रयोगशालाओं/केंद्रों (पूर्व भारत में -11 स्थानों) पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

पद का नाम	पे लेवल एवं ग्रेड पे (पूर्व-संशोधित)	रिक्तियों की संख्या
उप निदेशक	पे मैट्रिक्स लेवल 11 ग्रेड पे ₹. 6,600/- (पूर्व-संशोधित)	01
प्रशासनिक अधिकारी	पे मैट्रिक्स लेवल 9 ग्रेड पे ₹. 5,400/- (पूर्व-संशोधित)	03
सहायक अनुभाग अधिकारी	पे मैट्रिक्स लेवल 6 ग्रेड पे ₹. 4,200/- (पूर्व-संशोधित)	05
वैधानिक सहायक	पे मैट्रिक्स लेवल 6 ग्रेड पे ₹. 4,200/- (पूर्व-संशोधित)	04
वरिष्ठ सचिवीय सहायक	पे मैट्रिक्स लेवल 4 ग्रेड पे ₹. 2,400/- (पूर्व-संशोधित)	12

पोस्टिंग स्थान के साथ प्रोफाइल, पात्रता मानक और आवेदन प्रारूप का विवरण एसटीक्यूसी की वेबसाइट यानी [www.stgc.gov.in](http://www.stgc.gov.in) पर उपलब्ध है। आवेदन उचित माध्यम से विज्ञापन के प्रकाशन के 45 दिनों के भीतर पहुंच जाना चाहिए। आवेदन करते समय कठिनाई/तकनीकी समस्याओं के मामले में, उम्मीदवार [sanieev.kumar55@meitv.gov.in](mailto:sanieev.kumar55@meitv.gov.in) पर लिख सकते हैं।

CBC 06116/12/0001/2324